



8th June, 2023

Department of Corporate Services

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Dear Sir,

Scrip Code: 503229

Sub: Submission of the Newspapers Notice for the Members of the Company regarding the Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF)

With reference to the captioned subject and in connection with transfer of equity shares to the IEPF in terms of the provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, notified by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th September, 2016 and further amended by vide its notifications dated 28th February, 2017 and 13th October, 2017 respectively. Please find enclosed herewith the copies of Notice published in the Financial Express and Mumbai Lakshadweep.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Simplex Realty Limited**

KINJAL
Pratik
SHAH
Date:
2023.06.08
13:48:27
+05'30'

Kinjal P Shah
Company Secretary
And Compliance Officer

CIN-L17110MH1912PLC000351

30, Keshavrao Khadye Marg, Sant Gadge Maharaj Chowk, Mahalaxmi (E), Mumbai – 400011
T : +91 22 2308 2951 | F : +91 22 23072773 | E : investors@simplex-group.cdm W : www.simplex-group.com

CENTRAL RAILWAY

REPLACEMENT OF ONE BRACKET ASSEMBLY AND OTHER WORKS Name of Work: Replacement of Name/Corroded One Bracket Assembly and Provision of Anti-Bird Disc for Prevention of Bird Fault in 23 KV AC Insulators in Kalyan-Kasara-Igarpur, Kalyan-Kajri-Khigoli, Kargal-Panvel & Navi Mumbai Section of Kalyan & Lokavadi Districts including OMC Section of Mumbai Division. Approx. Value: ₹ 2.12,34,370/- EMD: ₹ 2,50,000/-

Completion Period: 12 Months. Time and Date for Submission of Tender will be up to 11.00 hrs. on 27/06/2023. Complete details of e-tender are available at official Railway website http://www.rps.gov.in

The complete documents can be downloaded from the website. The details of tender is available in the "Notice Board" of the (SDE/ITD), KYN's Office, Kalyan. Open e-tender Notice No.-HYE/12/5839RE/23-24-01-01-01-03/2023

Mail/WhatsApp Helpline: 9233333333

SIMPLEX REALTY LIMITED CIN: L1710MH1991PLC000351 Registered Office: 30, Keshavnagar Kalyan Marg, San Ghanshyam Building, Kalyan-400 011 Telephone: 022-23082951 Website: www.simplexgroup.com | Email: company secretary@simplexgroup.com

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 134(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 the following are amended for transfer of shares in respect of which dividend has remained unpaid or undistributed for seven consecutive years, to the IEPF set up by the Central Government.

Accordingly, individual communication has been sent to those Shareholders whose shares are liable to be transferred to the IEPF under the said Rules at their latest available address. The Company has updated the details of such Shareholders and their shares due for transfer to IEPF on its website www.simplexgroup.com. Shareholders are requested to refer to the said website for the latest updated version of IEPF-2015-16.pdf to verify the details of the shares liable to be transferred to the IEPF.

In view of the above, all such Shareholders are requested to make an application to the Company/Registrar of Companies (Registrar of Companies) on or before 04 September 2023 to claim the unpaid dividend for the year 2015-16 onwards so that their shares are not transferred to the IEPF. It may be noted that in case of non-compliance received by the Company or the RTA, the Company will be compelled to transfer the undivided shares to the IEPF, without any further notice.

Kindly note that if future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF. All Shareholders are requested to read the above provisions and claim all unpaid dividends from time to time. It may also be noted that as per present rules, the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, are to be deemed back from the IEPF authority after following the procedure prescribed under the said Rules.

For any clarification on the matter, Shareholders may kindly contact the Company's RTA, Parag Shreegoyal Private Limited having their office at 104, Shiv Datta 1st ESt, A.R. Bostwa Marg, Lower Panel - East, Mumbai-400011. Email: support@paragshreegoyal.com

For Simplex Realty Limited Sd/- Kunal Shah Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai Dated: 7th June, 2023

NOTICE Allium Finance Private Limited CIN: U67120MH2008PT100229 Tower 7 Wing B, Kalshor Chh. Mall, Kalshor City, Kurl Road, Kurla (West), Mumbai - 400 070

FEDERAL BANK YOUR TRUSTED FINANCING PARTNER Branch Kankvli

Customers of Federal Bank are hereby informed that our branch at Kankvli will be shifted to "Survey No. 163/B4 in the Building known as, 'Parnal City Center', Achard Road, at Post - Kalmath, Tehsil - Kankvli, Dist. - Sindhudurg, Maharashtra - 416 602" shortly.

As part of shifting, safe deposit lockers will also be shifted to the new premises. Customers may take steps to remove fragile items from the lockers, if any, before 03/07/2023.

Kindly contact the branch for further details. Place: Kankvli Date: 08.06.2023

For Federal Bank Limited Branch Head

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR 'SN ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED OPERATING IN READY MIX CONCRETE (RMC) MANUFACTURING AT MUMBAI (Under Project 384)' of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

1. Name of the corporate debtor along with PAN/CIN/LLP No. SN ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED U6200MH2007PTC167672

2. Address of the registered office Office No. 2, Plot No. 102-103, TTC Industrial Area, Turbhe, Near Mumbai, Thane 400703 (Maharashtra)

3. URL of website https://www.incorporating.com/india.html

4. Details of place where majority of fixed assets are located G Tech Block, MMRDA Ground, Opposite Fire Brigade Station, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051

5. Installed capacity of main products/services Value INR 18.622 crores as per the last audited financial statement as on March 31, 2022.

6. Quantity and value of main products/services sold in last financial year Per hour capacity - 60 cubic Product - Concrete Production

7. Number of employees/workmen 2(Two)

8. Further details including last available financial statements with schedule of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at: The Resolution Professional will share the documents through electronic mail and/or Virtual Data Room in accordance with the provisions of the Code and Regulations made thereunder.

9. Eligibility for resolution applicants under section 22(2) of the Code etc. is available at the address provided below and can also be requested through email 2023.ennengineering@gmail.com

10. Last date for receipt of expression of interest: June 23, 2023

11. Date of last date of provisional list of prospective resolution applicants: July 03, 2023

12. Last date for submission of objections to provisional list: July 08, 2023

13. Process email to submit EOI: 2023.ennengineering@gmail.com

FORM A PUBLIC ANNUITY STATEMENT (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF BLOSSOM GROCERY AND FOODS INDIA PVT LIMITED

1. Name of corporate debtor: Blossom Grocery and Foods India Private Limited

2. Date of incorporation of corporate debtor: 18/07/2007

3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered: 18/07/2007

4. Corporate Identity No./Tax Identification No. of corporate debtor: 18/07/2007

5. Address of the registered office and principal office: Office No. 1508, Sakinaka Plaza, Plot No. 1502, Sector 150C, Phase II, Gurgaon, Haryana, India

6. Intended commencement date in respect of corporate debtor: 06/06/2023

7. Estimated date of closure of insolvency resolution process: 02/12/2023

8. Name and registration number of the interim resolution professional: M. S. Gopalakrishnan, 088/99/02/2019/MS/12017/19/2019

9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board: 203, The Grandeur Nalanda, 6th, Sakinaka Lane, Gurgaon (Haryana), India - 122007

10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional: 203, The Grandeur Nalanda, 6th, Sakinaka Lane, Gurgaon (Haryana), India - 122007

11. Last date for submission of claims: 22/06/2023

12. Name of the Insolvency Professional: M. S. Gopalakrishnan

13. Name of the Insolvency Professional: M. S. Gopalakrishnan

Indian Bank ALLAHABAD CHEMBUR BRANCH, 71C, Sunder Bldg. N. G. Acharya Marg, Govandi Road, Chembur, Mumbai - 400071. E-mail: chembur@indianbank.com

E-AUCTION SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002 'AS IS WHERE IS BASIS' AND 'AS IS WHAT IS BASIS' through e-auction platform provided at the website https://www.mstccommerce.com

'APPENDIX-IV-A' [See provision to rule 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(f) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

NOTICE is hereby given to the Public in General and in particular to the Borrowers (s) and Guarantor(s) that the below Described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the SYMBOLIC / PHYSICAL POSSESSION of which has been taken by the Authorized Officer of Indian Bank, Secured Creditor, will be sold on 'AS IS WHERE IS' / 'AS IS WHAT IS' AND 'WHAT EVER THERE IS' on the date mentioned below for recovery as follows :-

Table with 5 columns: Sr. No., Description of the Property With Property No. (Status Of Possession), Name Of The Borrower/ Guarantor/ Mortgagee With Address, Amount of Secured Debt, Reserve Price Earnest Money Deposit (EMD) Bid Incremental Amt.

DATE AND TIME OF E-AUCTION : 26.06.2023 @ 11.00 AM Encumbrances for property: Nil INSPECTION DATE & TIME : 21.06.2023 to 23.06.2023 between 10.00 am to 4.00 pm.

Bidders are advised to visit the website (www.mstccommerce.com) of our e-auction service provider MSTC Ltd to participate in time to time for Technical Assistance. For Registration status with MSTC Ltd, please contact itablog@mstccommerce.com and for EMD status please contact mca@indianbank.com

For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://ibap.in and for clarifications related to this notice, please contact helpline number: 18001205206 and 011-41106131. Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://ibap.in and www.mstccommerce.com.

Date: 07.06.2023 Place: Mumbai Indian Bank, Authorized Officer

AUTOMOBILE CORPORATION OF GOA LIMITED CIN: L35911GA1980PLC00040 Registered Office: Honda, Sattari, Goa - 403 530

NOTICE OF 43rd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING, DIVIDEND AND BOOK CLOSURE

Annual General Meeting: NOTICE is hereby given that the Forty Third (43rd) Annual General Meeting (AGM' or 'Meeting') of the Members of Automobile Corporation of Goa Limited ('the Company') will be held on Thursday, June 29, 2023 at 2.00 p.m. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In accordance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 and SEBI/HO/CFD/PO-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), the Company has sent Notice of the 43rd AGM along with a weblink to access the Annual Report 2022-23 on Wednesday, June 7, 2023, through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent/ Depository Participants ('DP's').

The Annual Report 2022-23 of the Company along with Notice and the Explanatory Statement of the 43rd AGM is available on the website of the Company at https://acgogoa.com/annualreports and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of the National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Remote e-Voting: In compliance with Section 106 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the MCA Circulars, the Company is pleased to provide to its Members the facility of remote e-Voting before/ during the AGM in respect of the business to be transacted as mentioned in the Notice of the 43rd AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notes to the Notice of the 43rd AGM. Members are requested to note the following: a. The remote e-Voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting: From 9.00 a.m. IST on Monday, June 26, 2023 Conclusion of remote e-Voting: Up to 5.00 p.m. IST on Wednesday, June 28, 2023

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, June 22, 2023 (Cut-off date). The facility of remote e-Voting shall also be made available during the Meeting and shall be disabled 15 minutes after the conclusion of the Meeting. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right to vote at the Meeting. Once the Member has cast their vote on a resolution by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before/ during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting or by the Member, the same shall not be entitled to vote on such resolution(s) again.

c. A non-individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode and who becomes a Member of the Company after the despatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-Voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

FOR THE FINANCIAL EXPRESS DAILY BUSINESS. FINANCIAL EXPRESS DAILY BUSINESS.

1. The Resolution Professional ('RP') Committee of Creditors ('CoC') with designating and change the officer for the EOI at any point of time. 2. The RP/CoC reserves the right to cancel or modify the process application without assigning reason and without any liability whatsoever. 3. Detailed invitation for Expression of Interest specifying criteria, eligibility norms under Section 22(2) of the Code etc. is available at the address provided below and can also be requested through email 2023.ennengineering@gmail.com.

L&T Finance Limited Registered Office: 15th Floor, PS Srijan Tech Park Plot No. 52, Block DN, Sector V, Salt Lake City Kolkata 700 091, District 24-Parganas North. CIN No.: U65910WB1993FLC00690 Branch Office: Badlapur

PUBLIC AUCTION FOR SALE OF MORTGAGED PROPERTY

The Authorized Officer of L&T Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) and exercise of powers conferred under the said Act is auctioning the following property on 'AS IS WHERE IS BASIS' and 'AS IS WHAT IS CONDITION' by way of 'PUBLIC AUCTION' for recovery of its dues and further interest, charges and costs.

Table with 10 columns: Name of Borrower and Co-Borrower, Secured Property Address, Loan Account Number(s), Physical Possession Taken, Earnest Money Deposit 10% or more of RP (in ₹), Total Outstanding dues as on 05.06.2023, Reserve Price (in ₹), Date of Inspection, Date and Time of Auction.

Terms and Conditions of Public Auction 1. The E-Auction Sale is being conducted online by the Authorized Officer through the website https://rafaasi.E-auctioning.net under the provisions of SARFAESI Act with the aid and through public e-Auction mode.

2. The public Auction will be conducted on the date and time mentioned herein above, when the secured assets mentioned above will be sold on 'AS IS WHERE IS' BASIS & 'AS IS WHAT IT IS' CONDITION. 3. For participating in the public Auction, intending purchaser/bidders will have to submit the details of payment of refundable Earnest Money Deposit of 10 % of the reserve price of the secured assets along with copies of the PANCARD, Board Resolution in case of company and Address Proof on or before 22/06/2023.

4. The EMD of all other bidders who did not succeed in the public Auction will be refunded by L&T within 7 days of the closure of the public Auction. The EMD will not carry any interest. 5. The successful purchaser/bidder shall deposit the 25 % (inclusive of EMD) of his/its offer by way of D.D./D.O favoring "L&T Finance Limited" payable at Mumbai on or before 18:00 hours on 26/06/2023. In case of e-auction on the next working day i.e., 26/06/2023, which deposit will be confirmed by L&T Finance Limited, failing which the sale will be deemed have been failed and EMD of the said successful bidder shall be forfeited. The balance amount i.e., 75% of purchase price payable shall be paid by the purchaser to L&T Finance Limited on or before the fifteenth day of confirmation of sale of immovable property or such extended period as per provisions of law.

6. For inspection purposes, the prospective bidders may contact the authorized officer i.e., "Name - Prashant Patil, L&T Finance Limited - Office: 6th Floor, Brindavan Building, Plot No 177, Kalina, CST Road, Near Mercedes Showroom, Santa Cruz (East), Mumbai - 400 098 and Ankit Vij, contact No. 8108102061, L&T Finance Ltd., Office: 6th Floor, Brindavan Building, Plot No 177, Kalina, CST Road, Near Mercedes Showroom, Santa Cruz (East), Mumbai - 400 098" At any stage of the auction, the Authorized Officer may accept/reject/modify/reject the bid/offer or postpone the e-Auction without assigning any reason therefor and without any prior notice. 7. The successful purchaser/bidder shall bear any statutory dues, taxes, fees payable, stamp duty, registration fees, etc. that is required to be paid in order to get the property conveyed/delivered in his/her/its favour as per the applicable law.

8. The Borrower/Guarantors, who are liable for the said outstanding dues, shall treat this Sale Notice as a notice under Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, holding the obligation above-mentioned public e-Auction sale. 9. The Borrower (s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagee(s) are hereby called upon to pay the entire loan outstanding dues as mentioned above before the said e-Auction date failing which the L & Finance Ltd shall sale the property as per the provisions laid down in the SARFAESI Act, 2002. 10. The Borrower (s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagee(s) public at large are hereby restrained from transferring by way of sale, lease or otherwise with the secured assets referred to in the notice without prior written consent of L&T Finance Limited.

